

भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2003/पौष 25, 1924

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2003/PAUSA 25, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2003

सं. 59/2002—2007

फा. सं. 01/94/180/26/एएम 03/पीसी4.—निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1) पैराग्राफ 6.7(ड.) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :—

“सभी निर्यातानुमुखी एककों का 01 अप्रैल, 2003 से अपनी स्वयं की वेब साइट और स्थायी ई-मेल पता होना चाहिए। जब तक एकक की अपनी वेब साइट और स्थायी ई-मेल पता न हो, 01 अप्रैल, 2003 के बाद इन नये एककों के साथ कोई विधिक वचनबद्धता निष्पादित नहीं की जायेगी। यदि किसी निर्यातानुमुखी एकक का अपना स्थायी ई-मेल पता और वेब साइट नहीं है तो, विकास आयुक्त द्वारा आगे आयात और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी”।

2) पैरा 6.9 (घ) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा गया है :—

“निर्यात और आयात नीति के पैरा 6.9 (ज) के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री योग्य गैर आई टी ए - आई मदों को परिशिष्ट 14 ख में दिया गया है।”

3) पैरा 7.8 (ख) के अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा गया है :—

“निर्यात और आयात नीति के पैरा 7.8 (7) के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री योग्य गैर आई टी ए - आई मदों को परिशिष्ट 14 ख में दिया गया है।”

4) “ई ओ यू/ई पी जेड/एस ई जेड स्कीम के अन्तर्गत ई ओ यू/ई पी जेड/एस ई जेड एककों को स्वतः अनुमोदन देने के लिए अपनाए जाने वाले मापदण्ड” से संबंधित परिशिष्ट 14 ख की क्रम संख्या 6 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा गया है :—

(7) पॉलिएस्टर यार्न :-

- (i) ई ओ यू/ई पी जेड/डी टी ए के साथ जॉब कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, यह उन एककों के लिए लागू नहीं होगा जो (एकक के भीतर पॉलिएस्टर (या) टेक्ट्राइज्ड यार्न से बने) फैब्रिक को रंगाई के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में जॉब कार्य के लिए भेजना चाहते हैं।
- (ii) मौजूदा या नये पॉलिएस्टर यार्न से माल तैयार करने वाले किसी भी एकक को तृतीय पार्टी से निर्यात की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उन्हें सीधे ही निर्यात करना होगा ;
- (iii) ये प्रतिबन्ध उन एककों पर लागू नहीं होंगे जो उसी ई पी जेड/एस ई जेड में हैं।

(8) अतिरिक्त पावर की बिक्री :-

ई ओ यू/ई पी जेड /एस ई जेड एककों द्वारा अतिरिक्त पावर की बिक्री के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

- (i) भविष्य में जब कभी विकास आयुक्त को अतिरिक्त पावर की बिक्री का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो राज्य विद्युत बोर्ड सहित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके इसकी जाँच की जायेगी। यह हालाँकि ई पी जेड/एस ई जेड के अन्तर्गत पावर की बिक्री पर लागू नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त पावर यूनिट के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल और उपभोग्यों पर मानदण्डों संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (ii) एक निर्यातोन्मुखी एकक/निर्यात संवर्धन क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र से दूसरे निर्यातोन्मुखी एकक/निर्यात संवर्धन क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र में अतिरिक्त पावर की बिक्री पर कोई प्रशुल्क अदा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी आपूर्ति के बारे में संबंधित निर्यातोन्मुखी एकक/विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा संभरक एकक द्वारा कच्चे माल की खपत का उचित हिसाब रखना होगा। आयातित निविष्टियों और उपभोग्यों के मूल्य को संभरक एकक के एन एफ ई पी/एन एफ ई के परिकलन में शामिल करना होगा।
- (iii) सम्बद्ध अध्यादेश के अन्तर्गत राज्य विद्युत बोर्डों से अनुमति लेने के बाद एकक घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में अतिरिक्त पावर की बिक्री के लिए सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, की अनुमति प्राप्त करेगा। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को पावर की बिक्री पर शुल्क इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार लगेगा।
- (iv) ई ओ यू/ई पी जेड/एस ई जेड एककों द्वारा उनकी वास्तविक जरूरतों की तुलना में पावर प्लान्ट की मंजूरी प्रदान करते समय विकास आयुक्त/अनुमोदन बोर्ड द्वारा सावधानी बरतनी होगी।

(9) गैर आई टी ए-आई मर्दे, जिन्हें घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचा जा सकता है :

निर्यात और आयात नीति के पैरा 6.9(ज) और 7.8(7) के अनुसार निम्नलिखित गैर आई टी ए-आई मर्दों की बिक्री घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में की जा सकती है।

- (1) मानीटर्स के लिए कलर डिसप्ले ट्यूब (सी डी टी)
- (2) कलर मानीटर्स के लिए डिफ्लेक्सन कम्पोनेन्ट्स

5) कृषि निर्यात क्षेत्रों से संबंधित परिशिष्ट-15 में निम्नलिखित परिवर्धन किए गए हैं :-

क्रम सं०	उत्पाद	राज्य	जिले
33	प्याज	महाराष्ट्र	नासिक, अहमद नगर, पुणे, सतारा, जलगाँव, सोलापुर
34	अदरक और हल्दी	उड़ीसा	कण्ठमाल
35	सब्जियाँ	झारखण्ड	रौंछी, हजारीबाग और लोहारदागा
36	साबुत मसाले	मध्य प्रदेश	गुना, मन्दसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर और नीमच
37	बासमती चाल	उत्तरांचल	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार
38	आम	पश्चिम बंगाल	माल्दा और मुर्शिदाबाद
39	सब्जियाँ	पश्चिम बंगाल	नादिया, मुर्शिदाबाद और उत्तरी 24 परगना
40	आम	तमिलनाडु	मदुरै, थेनी, डिन्डिगल, विरुधूनगर और तिरुनेलवेली
41	गेहूँ (भोपाल क्षेत्र के लिए शरबती गेहूँ सहित)	मध्य प्रदेश	उत्तरी उज्जैन (नीमच, रतलाम, मन्दसौर और उज्जैन), इन्दौर क्षेत्र (इंदौर, धार, शाजपुर और देवास) और भोपाल क्षेत्र (सेहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर और भोपाल)

6) “निर्यात संवर्धन परिषद्/वस्तु बोर्डों की सूची” से सम्बन्धित परिशिष्ट 27 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्यात संवर्धन परिषद् को जोड़ा गया है :

क्रम सं०	निर्यात संवर्धन परिषद् का नाम	परिषद् के पंजीकृत कार्यालय का पता	परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) का पता
31	निर्यातमुखी एककों/विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् (ई पी सी)	बी-4, पाल मोहन मैन्सन, 26/34 पूर्वी पटेल नगर नई दिल्ली-110008 फोन : 011.25787325/ 25819237 ई मेल : सीईयू@वीएसएनएल.कॉम	

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th January, 2003

No. 59/2002—07

F. No. 01/94/180/26/AM03/PC IV.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002—07, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1) :—

1) Paragraph 6.7(e) is amended as under:

"With effect from 01.04.2003, all EOUs should have their own web site and permanent e-mail address. No LUT for new units after 01.04.2003 shall be executed unless the unit has its own web site and permanent e-mail address. In the event of an EOU not having permanent e-mail address and own website, further, imports and DTA sale may not be permitted by the Development Commissioner."

2) The following sentence is added at the end of para 6.9 (d) :

"Non ITA-I items that may be sold in DTA in terms of paragraph 6.9(h) of the Exim Policy are given in Appendix 14 B."

3) The following sentence is added at the end of para 7.8(b):

"Non ITA-I items that may be sold in DTA in terms of paragraph 7.8 (vii) of the Exim Policy are given in Appendix 14 B."

4) The following is added at the end of S.No 6 of Appendix 14 B pertaining to the

"Criteria to be adopted for automatic approval of EOU/ EPZ/ SEZ units under EOU/ EPZ/ SEZ Scheme"

(7) POLYESTER YARN:

- (i) *No job work with EOU/ EPZ/ DTA shall be permitted. However, this shall not be applicable to units who intend to send the fabric { made out of Polyester (or) texturised yarn within the unit} for jobwork to DTA for dyeing of the fabric.*
- (ii) *None of the units making goods out of polyester yarn – existing or new – shall be permitted to do exports through third party and they have to export directly;*
- (iii) *These restrictions shall not apply to units in the same EPZ/ SEZ.*

(8) SALE OF SURPLUS POWER:

The following procedure shall apply in regard to sale of surplus power by EOU/ EPZ/ SEZ units:-

- (i) *Henceforth whenever the Development Commissioner receives proposals for sale of surplus power, it would be examined in consultation with the State Government, including State Electricity Board. This shall, however, not apply to sale of power within the EPZ/ SEZ. The Development Commissioner will report the norms on raw materials and consumables required for generation of a unit of power for consideration and approval by the Board of Approval.*
- (ii) *No duty shall be required to be paid on sale of surplus power from an EOU/ EPZ/ SEZ unit to another EOU/ EPZ/ SEZ units. Development Commissioner of EPZ/ SEZ concerned would be informed in writing of such supply and proper account of the consumption of raw material would be maintained by the supplying unit. The value of imported inputs and consumables shall be taken into account for NFEP/ NFE calculations of the supplying unit.*

- (iii) *The unit will obtain permission of the Assistant Commissioner of Customs/ Central Excise for sale of surplus power in the DTA, after obtaining permission from the SEBs under the relevant statute. Duty on sale of power to the DTA shall be as per the Notification of the Department of Revenue in this regard.*
- (iv) *Due care shall be taken by the Development Commissioner / Board of Approval while approving the power plants by EOU/ EPZ/ SEZ units vis a vis their actual requirement.*

(9) NON ITA-I ITEMS THAT MAY BE SOLD IN DTA

The following non ITA-I items may be sold in the DTA in terms of para 6.9(h) and 7.8(vii) of the Exim Policy:

- (i) *Colour Display Tubes (CDT) for monitors*
- (ii) *Deflection components for colour monitors*

5) The following additions are made in Appendix 15 pertaining to the Agri- Export Zones:

S. No	Product	State	Districts
33	Onion	Maharashtra	Nasik, Ahmednagar, Pune, Satara, Jalgaon, Solapur
34	Ginger and Turmeric	Orissa	Kandhamal
35	Vegetables	Jharkhand	Ranchi, Hazaribagh and Lohardaga
36	Seed Spices	Madhya Pradesh	Guna, Mandsaur, Ujjain, Rajgarh, Ratlam, Shajapur and Neemuch
37	Basmati Rice	Uttaranchal	Udham Singh Nagar, Nainital, Dehradun and Haridwar
38	Mango	West Bengal	Maldah and Murshidabad
39	Vegetables	West Bengal	Nadia, Murshidabad and North 24 Parganas
40	Mangoes	Tamil Nadu	Madurai, Theni, Dindigul, Virudhunagar and Tirunelveli
41	Wheat (including sharbati wheat for Bhopal Zone)	Madhya Pradesh	Ujjain Zone (Neemuch, Ratlam, Mandsaur and Ujjain), Indore Zone (Indore, Dhar, Shajapur and Dewas) and Bhopal Zone (Sehore, Vidisha, Raisen, Hoshangabad, Harda, Narsinghpur and Bhopal)

6) The following is added as an Export Promotion Council under Appendix 27 pertaining to "List of Export Promotion Council / Commodity Boards"

S. No	Name of Export Promotion Council	Address of the Regd. Office of the Council	Address of the Regional office(s) of the council
1	2	3	4
31	Export Promotion Council (EPC) for EOUs/ SEZ units	B-4, Pal Mohan Mansion, 26/34 East Patel Nagar, New Delhi 110008 Ph: 011-25787325/ 25819237 Fax: 011- 25819237 Email: ceu@vsnl.com	

This issues in public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade